



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 1981/माघ 14, 1902

No. 57]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 1981/MAGHA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1981

आ. आ. 87(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 862(अ.), तारीख 27 अक्टूबर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2 उक्त आदेश में,—

(क) आरम्भिक पैरा में, “नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में” शब्दों से आरम्भ होने वाले और “माल की श्रेणियां विनिर्दिष्ट करती हैं” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में “24. कागज और लकड़ी, जिसमें कागज उत्पाद भी सम्मिलित हैं” शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित उद्योग से संबंधित किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूर्णतः या अंशतः विनिर्मित या उत्पादित, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विहित, ऐसे माल की श्रेणियां विनिर्दिष्ट करती हैं” ;

(ख) सारणी के स्तम्भ (1) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सभी प्रकार का कागज और गत्ता (जिसमें अखबारी कागज, दफती (पेस्ट बोर्ड), मिलबोर्ड, स्ट्राबोर्ड, कार्डबोर्ड और नानीवार बोर्ड भी सम्मिलित हैं)”

3. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 3(101)/79-कागज]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1981

S.O. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 862(E), dated the 27th October, 1980, namely :—

2. In the said Order,—

(a) in the opening paragraph, for the portion beginning with the words “the classes of goods” and ending with the words “the Table below”, the following shall be substituted, namely :—

“the classes of goods described in column (1) of the Table below, manufactured or produced wholly or

in part by any industrial undertaking pertaining to the scheduled industry falling under the heading "24. Paper and Pulp including Paper Products" in the First Schedule to the said Act;

(b) for the entries in column (1) of the Table, the following shall be substituted, namely:—

"Paper and Paper Board, all sorts (including newsprint, pasteboard, mill board, strawboard, cardboard and corrugated board)."

3. This Order shall come into force on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3(101)/79-Paper]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1981

का. आ. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में, "24. कागज और लुगदी, जिसमें कागज उत्पाद भी सम्मिलित हैं" शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित उद्योग से सम्बन्धित और जिनके अधिक से अधिक बीस लाख रुपए के संयंत्र और मशीनरी में स्थिर आस्तियों में विनिधान हैं, औद्योगिक उपक्रमों को भारत सरकार के

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के समय-समय पर यथा संशोधित, आदेश संख्या का. आ 862(अ.), तारीख 27 अक्टूबर, 1980 के प्रवर्तन से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और उससे प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3(101)/79-कागज]

बी. आर. आर. आयंगर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1981

S.O. 88(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts the industrial undertakings pertaining to the scheduled industry falling under the heading "24. Paper and Pulp including Paper Products" in the First Schedule to the said Act and having investment in fixed assets in plant and machinery not exceeding twenty lakhs of rupees from the operation of the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 862(E), dated the 27th October, 1980, as amended from time to time.

2. This notification shall come into force on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3(101)/79-Paper]

B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.